

Gal

Chapter 3

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 ὦν ἀνόητοι Γαλάται! τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, <τῆ ἀληθείᾳ μὴ παίθεσθαι>
ओ निरबुधि गलतियोन! किस्ने तुमहे जदोओ-किय, उस सत्य को न-मअन्न?
[G5599](#) [G0453](#) [G1052](#) [G5101](#) [G4771](#) [G0940](#) [G3588](#) [G0225](#) [G3361](#) [G3982](#)

οἷς κατ' ὀφθαλμοῦς, Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος?
जिनके के-समुख अनखोन, येशु खरिस्तोस चित्रित-किय-गय क्रुस-पर-चध?
[G3739](#) [G2596](#) [G3788](#) [G2424](#) [G5547](#) [G4270](#) [G4717](#)

हे मूर्ख गलतियो, तुम पर किसने जादू कर दिया है? तुम्हें तो, सब के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया था, इसका पूरा विवरण दे दिया गया था।

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ' ὑμῶν: ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα
यह केवल मैंन-चहत-हुन जअन्न से तुमसे: से करमीन व्यवस्थ उस अअतम
[G3778](#) [G3440](#) [G2309](#) [G3129](#) [G0575](#) [G4771](#) [G1537](#) [G2041](#) [G3551](#) [G3588](#) [G4151](#)

ἐλάβετε, ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως?
तुमने-पअय, य से सुन्ने विशवस?
[G2983](#) [G2228](#) [G1537](#) [G0189](#) [G4102](#)

मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा का वरदान क्या व्यवस्था के विधान को पालने से पाया था, अथवा सुसमाचार के सुनने और उस पर विश्वास करने से?

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε? ἐναρξάμενοι Πνεύματι, νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε?
इतने निरबुधि हो? शुरु-करके अअतम, अब शरेएर तुम-समअप्त-करते-हो?
[G3779](#) [G0453](#) [G1510](#) [G1728](#) [G4151](#) [G3568](#) [G4561](#) [G2005](#)

क्या तुम इतने मूर्ख हो सकते हो कि जिस जीवन को तुमने आत्मा से आरम्भ किया, उसे अब हाड़-माँस के शरीर की शक्ति से पूरा करोगे?

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ? εἶ γε καὶ εἰκῆ?
इतन तुमने-सह व्यरथ? अगर सचचि भि व्यरथ?
[G5118](#) [G3958](#) [G1500](#) [G1487](#) [G1065](#) [G2532](#) [G1500](#)

तुमने इतने कष्ट क्या बेकार ही उठाये? आशा है कि वे बेकार नहीं थे।

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα, καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν,
उस तो जो-देत-है तुमहे उस अअतम, और जो-करत-है शक्तियन मेइन तुम्मे,
[G3588](#) [G3767](#) [G2023](#) [G4771](#) [G3588](#) [G4151](#) [G2532](#) [G1754](#) [G1411](#) [G1722](#) [G4771](#)

ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως?
से करमीन व्यवस्थ य से सुन्ने विशवस?
[G1537](#) [G2041](#) [G3551](#) [G2228](#) [G1537](#) [G0189](#) [G4102](#)

परमेश्वर, जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और जो तुम्हारे बीच आश्चर्य कर्म करता है, वह यह इसलिए करता है कि तुम व्यवस्था के विधान को पालते हो या इसलिए कि तुमने सुसमाचार को सुना है और उस पर विश्वास किया है।

6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
जैसे अब्रहम विशवस-किय उस परमेशवर, और गिन-गय उसे के-लिये धरमिक्त.
[G2531](#) [G0011](#) [G4100](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3049](#) [G0846](#) [G1519](#) [G1343](#)

यह वैसे ही है जैसे कि इब्राहीम के विषय में शास्त्र कहता है: “उसने परमेश्वर में विश्वास किया और यह उसके लिये धार्मिकता गिनी गई।”

7 Γινώσκετε ὅρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοὶ εἰσιν Ἀβραάμ.
जानो तो कि उन से विश्वास, यहि पुत्र हैन अब्रहम.
[G1097](#) [G0686](#) [G3754](#) [G3588](#) [G1537](#) [G4102](#) [G3778](#) [G5207](#) [G1510](#) [G0011](#)

तो फिर तुम यह जान लो, इब्राहीम के सच्चे वंशज वे ही हैं जो विश्वास करते हैं।

8 προῖδοῦσα δὲ ἡ γραφή, ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη
पेहले-से-देखकर परन्तु उस शस्त्र, कि से विश्वास धरमिक-थहअत-है उन जतियों-को
[G4308](#) [G1161](#) [G3588](#) [G1124](#) [G3754](#) [G1537](#) [G4102](#) [G1344](#) [G3588](#) [G1484](#)

ὁ Θεὸς, προεὐηγγελίσατο τῷ Ἀβραάμ ὅτι: Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ,
उस परमेश्वर, पेहले-हि-सुस्मचर-सुनय उस अब्रहम कि: अअशिश-पअयेनगे मेइन तुझमे,
[G3588](#) [G2316](#) [G4283](#) [G3588](#) [G0011](#) [G3754](#) [G1757](#) [G1722](#) [G4771](#)

πάντα τὰ ἔθνη.
सब उन जअतियअन.
[G3956](#) [G3588](#) [G1484](#)

शास्त्र ने पहले ही बता दिया था, “परमेश्वर गैर यहूदियों को भी उनके विश्वास के कारण धमीज़ ठहरायेगा। और इन शब्दों के साथ पहले से ही इब्राहीम को परमेश्वर द्वारा सुसमाचार से अवगत करा दिया गया था।”

9 ὥστε, οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.
इस्तिये, उन से विश्वास अअशिश-पअते-हैन सअथ उस विश्वासि अब्रहम.
[G5620](#) [G3588](#) [G1537](#) [G4102](#) [G2127](#) [G4862](#) [G3588](#) [G4103](#) [G0011](#)

इसीलिए वे लोग जो विश्वास करते हैं विश्वासी इब्राहीम के साथ आशीष पाते हैं।

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν εἰσίν. γέγραπται γὰρ ὅτι,
जितने क्य से करमोन व्यवस्थ हैन, नेएचे अश्रअप हैन. लिख-है क्य कि,
[G3745](#) [G1063](#) [G1537](#) [G2041](#) [G3551](#) [G1510](#) [G5259](#) [G2671](#) [G1510](#) [G1125](#) [G1063](#) [G3754](#)

Ἐπικατάρατος πᾶς ὁς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ
श्रपित हर जो नहि बन-रहत सब उन लिखे-हुए मेइन उस
[G1944](#) [G3956](#) [G3739](#) [G3756](#) [G1696](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1125](#) [G1722](#) [G3588](#)

βιβλίῳ τοῦ νόμου, τοῦ ποιῆσαι αὐτά.
पुस्तक के व्यवस्थ, के करने उनहे.
[G0975](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G4160](#) [G0846](#)

किन्तु वे सभी लोग जो व्यवस्था के विधानों के पालन पर निर्भर रहते हैं, वे तो किसी अभिशाप के अधीन हैं। शास्त्र में लिखा है: “ऐसा हर व्यक्ति शापित है जो व्यवस्था के विधान की पुस्तक में लिखी हर बात का लगन के साथ पालन नहीं करता।”

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ, οὐδείς δικαιούται παρὰ τῷ Θεῷ, διῆλον; ὅτι,
कि परन्तु मेइन व्यवस्थ, कोइ-नहि धरमिक-थहअय-जअत के-पअस उस परमेश्वर, स्पशतिक; कि,
[G3754](#) [G1161](#) [G1722](#) [G3551](#) [G3762](#) [G1344](#) [G3844](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1212](#) [G3754](#)

Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.
उस धरमिक से विश्वास जेएयेग.
[G3588](#) [G1342](#) [G1537](#) [G4102](#) [G2198](#)

अब यह स्पष्ट है कि व्यवस्था के विधान के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी नेक नहीं ठहरता है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार “धर्मी व्यक्ति विश्वास के सहारे जीयेगा।”

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως; ἀλλ', Ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται
उस परन्तु व्यवस्थ नहि है से विश्वास; परन्तु, जो करने-वल उनहे जेएयेग
[G3588](#) [G1161](#) [G3551](#) [G3756](#) [G1510](#) [G1537](#) [G4102](#) [G0235](#) [G3588](#) [G4160](#) [G0846](#) [G2198](#)

ἐν αὐτοῖς.
मेइन उनमेइन.
[G1722](#) [G0846](#)

किन्तु व्यवस्था का विधान तो विश्वास पर नहीं टिका है बल्कि शास्त्र के अनुसार, जो व्यवस्था के विधान को पालेगा, वह उन ही के सहारे जीयेगा।

- 13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ
 खरिस्तोस हमेन मोल-लिय से उस श्रअप के व्यवस्था, बनकर के-लिये
[G5547](#) [G1473](#) [G1805](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2671](#) [G3588](#) [G3551](#) [G1096](#) [G5228](#)
- ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται, Ἐπικατάρatos πᾶς ὁ κρεμᾶμενος ἐπὶ ξύλου;
 हमरे श्रअप, क्योनकि लिख-है, श्रपित हर जो लतक-हुअ पर लकदि;
[G1473](#) [G2671](#) [G3754](#) [G1125](#) [G1944](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2910](#) [G1909](#) [G3586](#)

मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर ले कर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है: "हर कोई जो वृक्ष पर टाँग दिया जाता है, शापित है।"

- 14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἢ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται, ἐν Ἰησοῦ
 तकि मेइन उन जतियोन उस अअशिरवअद के अब्रहम ही, मेइन येशु
[G2443](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1484](#) [G3588](#) [G2129](#) [G3588](#) [G0011](#) [G1096](#) [G1722](#) [G2424](#)
- Χριστῷ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν, διὰ τῆς πίστεως.
 खरिस्तोस, तकि उस वअद के अअतम पअयेइन, दवर उस विशवस.
[G5547](#) [G2443](#) [G3588](#) [G1860](#) [G3588](#) [G4151](#) [G2983](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4102](#)

मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि, इब्राहीम को दी गयी आशीश मसीह यीशु के द्वारा और यहूदियों को भी मिल सके ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें, जिसका वचन दिया गया था।

- 15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω, ὁμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην,
 भेयो, के-अनुसर मनुश्य मैंन-कहत-हुन, फिर-भि मनुश्य-क प्रमअनिक वअचन,
[G0080](#) [G2596](#) [G0444](#) [G3004](#) [G3676](#) [G0444](#) [G2964](#) [G1242](#)
- οὐδεὶς ἀθετεῖ, ἢ ἐπιδιατάσσεται.
 कोइ-नहि रद्द-करत, य अद्द-करत.
[G3762](#) [G0114](#) [G2228](#) [G1928](#)

हे भाईयों, अब मैं तुम्हें दैनिक जीवन से एक उदाहरण देने जा रहा हूँ। देखो, जैसे किसी मनुष्य द्वारा कोई करार कर लिया जाने पर, न तो उसे रद्द किया जा सकता है और न ही उस में से कुछ घटाया जा सकता है। और न बढ़ाया,

- 16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ;
 उस परन्तु अब्रहम कह-गय उन वअदोन, और उस वनश उसके;
[G3588](#) [G1161](#) [G0011](#) [G2046](#) [G3588](#) [G1860](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4690](#) [G0846](#)
- οὐ λέγει, Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν; ἀλλ' ὡς ἐφ' ἐνός,
 नहि कहत, और उन वनशजोन, जैसे पर बहुतसे; परन्तु जैसे पर एक,
[G3756](#) [G3004](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4690](#) [G5613](#) [G1909](#) [G4183](#) [G0235](#) [G5613](#) [G1909](#) [G1520](#)
- Καὶ τῷ σπέρματι σου, ὅς ἐστιν Χριστός.
 और उस वनश तेरे, जो है खरिस्तोस.
[G2532](#) [G3588](#) [G4690](#) [G4771](#) [G3739](#) [G1510](#) [G5547](#)

वैसे ही इब्राहीम और उसके भावी वंशज के साथ की गयी प्रतिज्ञा के संदर्भ में भी है। (देखो, शास्त्र यह नहीं कहता, "और उसके वंशजों को" यदि ऐसा होता तो बहुतों की ओर संकेत होता किन्तु शास्त्र में एक वचन का प्रयोग है। शास्त्र कहता है, "और तेरे वंशज को" जो मसीह है।)

- 17 τοῦτο δὲ λέγω, διαθήκην, προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὁ μετὰ
 यह परन्तु मैंन-कहत-हुन, वअचन, पेहले-से-प्रमअनिक दवर उस परमेशवर, उस बअद
[G3778](#) [G1161](#) [G3004](#) [G1242](#) [G4300](#) [G5259](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G3326](#)
- τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγρονώς, νόμος οὐκ ἄκυροῖ, εἰς τὸ
 चअर-सौ और तेएस वरशोन हुअ, व्यवस्था नहि रद्द-करति, के-लिये उस
[G5071](#) [G2532](#) [G5144](#) [G2094](#) [G1096](#) [G3551](#) [G3756](#) [G0208](#) [G1519](#) [G3588](#)
- καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.
 व्यरथ-करने उस वअद.
[G2673](#) [G3588](#) [G1860](#)

मेरा अभिप्राय यह है कि जिस करार को परमेश्वर ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया उसे चार सौ तीस साल बाद आने वाला व्यवस्था का विधान नहीं बदल सकता और न ही उसके वचन को नाकारा ठहरा सकता है।

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἢ κληρονομία, οὐκέτι ἔξ ἐπαγγελίας; τῷ δὲ
अगर क्या से व्यवस्था उस विरसत, अब-नहि से वअद; उस परन्तु
[G1487](#) [G1063](#) [G1537](#) [G3551](#) [G3588](#) [G2817](#) [G3765](#) [G1537](#) [G1860](#) [G3588](#) [G1161](#)

Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας, κεχάρισται ὁ Θεός.
अब्रहम दवर वअद, दअन-किय उस परमेशवर.
[G0011](#) [G1223](#) [G1860](#) [G5483](#) [G3588](#) [G2316](#)

क्योंकि यदि उत्तराधिकार व्यवस्था के विधान पर टिका है तो फिर वह वचन पर नहीं टिकेगा। किन्तु परमेश्वर ने उत्तराधिकार वचन के द्वारा मुक्त रूप से इब्राहीम को दिया था।

19 τί οὖν ὁ νόμος? τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ
क्य तो उस व्यवस्था? उन अपराधों के-करन जोदि-गयि, जब-तक जो-को अअये
[G5101](#) [G3767](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G3847](#) [G5484](#) [G4369](#) [G0891](#) [G3739](#) [G2064](#)

τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγείς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.
उस वनश जिसको वअद-किय-गय, नियुक्त-किय-गय दवर सवरगदोओतोन मेइन हअथ बिचौलिये.
[G3588](#) [G4690](#) [G3739](#) [G1861](#) [G1299](#) [G1223](#) [G0032](#) [G1722](#) [G5495](#) [G3316](#)

फिर भला व्यवस्था के विधान का प्रयोजन क्या रहा? आज्ञा उल्लंघन के अपराध के कारण व्यवस्था के विधान को वचन से जोड़ दिया गया था ताकि जिस के लिए वचन दिया गया था, उस वंशज के आने तक वह रहे। व्यवस्था का विधान एक मध्यस्थ के रूप में मूसा की सहायता से स्वर्गदूत द्वारा दिया गया था।

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν; ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστίν.
उस परन्तु बिचौलिय एक नहि है; उस परन्तु परमेशवर एक है.
[G3588](#) [G1161](#) [G3316](#) [G1520](#) [G3756](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G1520](#) [G1510](#)

अब देखो, मध्यस्थ तो दो के बीच होता है, किन्तु परमेश्वर तो एक ही है।

21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ? μὴ γένοιτο! εἰ
उस तो व्यवस्था के-विरुद्ध उन वअदोन के परमेशवर? कभि नहि-हो! अगर
[G3588](#) [G3767](#) [G3551](#) [G2596](#) [G3588](#) [G1860](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3361](#) [G1096](#) [G1487](#)

γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῶσποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν
क्य दि-गयि-होति व्यवस्था उस समरथ जेएवित-करने, वअस्तव-मेइन से व्यवस्था कभि
[G1063](#) [G1325](#) [G3551](#) [G3588](#) [G1410](#) [G2227](#) [G3689](#) [G1537](#) [G3551](#) [G0302](#)

ἢ ἡ δικαιοσύνη;
होति उस धरमिक्त;
[G1510](#) [G3588](#) [G1343](#)

क्या इसका यह अर्थ है कि व्यवस्था का विधान परमेश्वर के वचन का विरोधी है? निश्चित रूप से नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था का विधान दिया गया होता जो लोगों में जीवन का संचार कर सकता तो वह व्यवस्था का विधान ही परमेश्वर के सामने धार्मिकता को सिद्ध करने का साधन बन जाता।

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφή τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἢ
परन्तु बन्द-किय उस शस्त्र उन सब नेएचे पअप, तकि उस
[G0235](#) [G4788](#) [G3588](#) [G1124](#) [G3588](#) [G3956](#) [G5259](#) [G0266](#) [G2443](#) [G3588](#)

ἐπαγγελία, ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, δοθῆναι τοῖς πιστεύουσιν.
वअद, से विशवस येशु खरिस्तोस, दिय-जअये उन विशवस-करनेवलोन.
[G1860](#) [G1537](#) [G4102](#) [G2424](#) [G5547](#) [G1325](#) [G3588](#) [G4100](#)

किन्तु शास्त्र ने घोषणा की है कि यह समूचा संसार पाप की शक्ति के अधीन है। ताकि यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर जो वचन दिया गया है, वह विश्वासी जनों को भी मिले।

23 Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα, συνκλειόμενοι
से-पेहले उस परन्तु अअने उस विशवस, नेएचे व्यवस्था हुम-रकशे-जअते-थे, बन्द-रहे-हुए
[G4253](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2064](#) [G3588](#) [G4102](#) [G5259](#) [G3551](#) [G5432](#) [G4788](#)

εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.
के-लिये उस अअने-वले विशवस प्रकत-होने.
[G1519](#) [G3588](#) [G3195](#) [G4102](#) [G0601](#)

| इस विश्वास के आने से पहले, हमें व्यवस्था के विधान की देखरेख में, इस आने वाले विश्वास के प्रकट होने तक, बंदी के रूप में रखा गया।

24 ὥστε ὁ νόμος, παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν, εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ
इस्लिये उस व्यवस्थ, प्रभरि हमर बन, के-लिये खरिस्तोस, तकि से
[G5620](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3807](#) [G1473](#) [G1096](#) [G1519](#) [G5547](#) [G2443](#) [G1537](#)

πίστεως δικαιοθῶμεν.
विश्वस धरमिक-थहअये-जअयेइन.
[G4102](#) [G1344](#)

| इस प्रकार व्यवस्था के विधान हमें मसीह तक ले जाने के लिए एक कठोर अभिभावक था ताकि अपने विश्वास के आधार पर हम नेक ठहरें।

25 ἔλθουσης δὲ τῆς πίστεως, οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν;
अअने-पर परन्तु उस विश्वस, अब-नहि नेएचे प्रभरि हुम-हैन;
[G2064](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4102](#) [G3765](#) [G5259](#) [G3807](#) [G1510](#)

| अब जब यह विश्वास प्रकट हो चुका है तो हम उस कठोर अभिभावक के अधीन नहीं हैं।

26 Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε, διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
सब क्य पुत्र परमेश्वर हो, दवर उस विश्वस मेइन खरिस्तोस येशु.
[G3956](#) [G1063](#) [G5207](#) [G2316](#) [G1510](#) [G1223](#) [G3588](#) [G4102](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#)

| यीशु मसीह में विश्वास के कारण तुम सभी परमेश्वर की संतान हो।

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε.
जितने क्य मेइन खरिस्तोस तुमने-बपतिस्म-लिय, खरिस्तोस तुमने-पेहेन-लिय.
[G3745](#) [G1063](#) [G1519](#) [G5547](#) [G0907](#) [G5547](#) [G1746](#)

| क्योंकि तुम सभी जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा ले लिया है, मसीह में समा गये हो।

28 οὐκ ἔστι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλληνας; οὐκ ἔστι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος; οὐκ
नहि है यहूदि न-हि युननि; नहि है दस न-हि सवतन्त्र; नहि
[G3756](#) [G1762](#) [G2453](#) [G3761](#) [G1672](#) [G3756](#) [G1762](#) [G1401](#) [G3761](#) [G1658](#) [G3756](#)

ἔστι ἄρσεν καὶ θῆλυ; πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
है नर और नअरि; सब क्य तुम एक हो, मेइन खरिस्तोस येशु.
[G1762](#) [G0730](#) [G2532](#) [G2338](#) [G3956](#) [G1063](#) [G4771](#) [G1520](#) [G1510](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#)

| सो अब किसी में कोई अन्तर नहीं रहा न कोई यहूदी रहा, न गैर यहूदी, न दास रहा, न स्वतन्त्र, न पुरुष रहा, न स्त्री, क्योंकि मसीह यीशु में तुम सब एक हो।

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ' ἐπαγγελίαν
अगर परन्तु तुम खरिस्तोस-के, तो उस अब्रहम वनश हो, के-अनुसर वअद
[G1487](#) [G1161](#) [G4771](#) [G5547](#) [G0686](#) [G3588](#) [G0011](#) [G4690](#) [G1510](#) [G2596](#) [G1860](#)

κληρονόμοι.
वरिस.
[G2818](#)

| और क्योंकि तुम मसीह के हो तो फिर तुम इब्राहीम के वंशज हो, और परमेश्वर ने जो वचन इब्राहीम को दिया था, उस वचन के उत्तराधिकारी हो।